



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 402 राँची, शुक्रवार,

17 मई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 मई, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-07/2014 का०-3726-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक 162 दिनांक 11.05.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 में, अनुबद्ध अनुसूची के अनुरूप, सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 147, सहायक सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 147 तथा पीठासीन पदाधिकारी/प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 2586 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।